



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 2003 (माघ 5, 1924)  
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2003 (MAGHA 5, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. ए-38012/1/02-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्यरत श्री राज सिंह, के.स.आ.से. को सेवानिवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एम. निर्मला राव  
अवर सचिव (प्रशा.)

पढ़ा जाए, तरतुदों के अनुसार और आ.स.वि.मं., संख्या 25013/10/85-स्था.(ए), दिनांक 05.07.1985 में दिए गए तरतुदों के अनुसार श्री डी. आर. रोकडे, सुरक्षा अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड के स्वेच्छा निवृत्ति सम्बन्धी आवेदन को स्वीकृत किया जाता है और तदनुसार उन्हें दिनांक 12.12.2002 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

गंगा प्रकाश  
महाप्रबन्धक

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 790/स्थापना-18-1--के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के एफ.आर.-56(के) (1-ए) जी नियम 48-ए(3-ए) के साथ

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद, दिनांक 4 जनवरी 2003

सं. 7(106)/9774--विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग "ख" की सिफारिशों के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित अधिकारियों

की परीक्षा अवधि उनके नाम के आगे दर्शाए दिनांक से सहर्ष समाप्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक
1.	श्री टी. आर. बरमोला	तकनीकी अधिकारी (उत्पादन विभाग)	21.09.2002
2.	श्री एल. एस. गौरी (अ.जा.)	-तदेव-	21.09.2002

अश्विनी कुमार  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 जनवरी 2003

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-119--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2003 (पूर्वाह्न) से आगे के आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

1. श्री प्रवीन किशोर चोपड़ा
2. श्री राजीव कुमार-II

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-120--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2003 (पूर्वाह्न) से आगे के आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

1. श्री सत्य नारायण
2. श्री रतन पाल सिंह यादव
3. श्री विजय कुमार भल्ला

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 9 जनवरी 2003

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-121--इस कार्यालय के श्री देश राज राजा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.01.2003 के अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 15.01.1943 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 05.04.1965 है।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 10 जनवरी 2003

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-122--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व श्री प्रकाश चन्द्र, अनुभाग अधिकारी को रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर दिनांक 03.01.2003 (अपराह्न) से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप बी) के रूप में अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-123--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर दिनांक 01.01.2003 (पूर्वाह्न) से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी कोड सं.	नाम
1	2	3
		सर्व/श्री
1.	0502	मोहिन्दर सिंह
2.	0518	श्रीमती कुलजीत कौर
3.	0564	अरुण रॉय
4.	0613	जयेन्द्र भारती
5.	0690	नन्द लाल मीना
6.	0836	यश पाल खरबंदा
7.	1074	शत्रुघ्न

1	2	3
8.	1170	सुभाष चन्द्र शर्मा
9	0896	श्रीमती जेनेट लुसी सीबीचन
10.	1090	राजीव कक्कड़
11.	0936	विजय अरोड़ा
12.	0938	श्रीमती राखी आजाद

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 सितम्बर 2002

सं. का. आ.-70--निवर्तन की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री गुरबचन लाल, व.ले.प. अधिकारी भारत सरकार की सेवा से दिनांक 30.9.2002 अपराह्न को सेवा निवृत्त होंगे। उनकी जन्म तिथि 10.9.1942 और कार्यभार ग्रहण की तिथि 25.4.1968 है।

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. का. आ.-71--निवर्तन की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री प्रीतम सिंह गाबा, व.ले.प. अधिकारी भारत सरकार की सेवा से दिनांक 30.9.2002 अपराह्न को सेवा निवृत्त होंगे। उनकी जन्म तिथि 1.10.1942 और कार्यभार ग्रहण की तिथि 28.8.1964 है।

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2003

सं. ए.एम.जी.-1/प्र.1/2(8)/सं.ले.प.अ./2002-2003/2461--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में अन्तिम आधार पर अस्थायी

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	राकेश शर्मा	01.01.2003
2.	वैभव कोले	01.01.2003
3.	श्रीमती कविता शर्मा	01.01.2003

टी. के. उग्रा  
उपनिदेशक (प्र.)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. प्रशासन-III/पेन/5-2/466--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री सुबिमल कान्ति राय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री परिमल चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री निरंजन चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल  
(स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)

कोलकाता, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

कार्यालय आदेश

सं. स.ले.प.(प्र.)/577/खंड-4/31--महालेखाकार (एल.बी.ए.), पश्चिम बंगाल ने, परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री तापस कुमार चट्टोपाध्याय, सहायक लेखा अधिकारी को समले आदेश दिए जाने तक परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतन क्रम में अस्थायी और स्थानापन्न रूप में तारीख 4.02.2002 के पूर्वाह्न या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख जो भी पीछे होगा, से नियुक्ति करते हैं।

नए प्रोन्नत लेखा परीक्षा अधिकारी को उनके वेतन नियंत्रण के तारीख के लिए जी.आई.एम.ओ.पी.जी. एवं पी. कार्मिक और प्रशासन सुविधा विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/89 स्थापन (वेतन-1)

तारीख 30.8.89 यथा संशोधित हुआ मूल नियम 22(1)(ए)1 के अधीन पदोन्नति की तारीख से एक महीना के अन्दर विकल्प दे दें। विकल्प एक बार देने से ही अंतिम समझा जाएगा।

बी. के. वानिक  
उप महालेखाकार (एल.वी.)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-1 का कार्यालय

हैदराबाद-500004, दिनांक 7 जनवरी 2003

सं. --प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-1 आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वेच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति तिथि
1.	श्री ए. सुब्बाराव	स.ले.प.अ. (सिविल)	31.12.2002 (अपराह)

श्रीनिवासु  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. --प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-1 आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित कर्माधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षाअधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षाअधिकारियों/ (सिविल) को स्वेच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति तिथि
1.	श्री दुर्गा प्रसाद राव	व.ले.प.अ. (सिविल)	31.12.2002 (अपराह)
2.	श्री के. वासुदेवन	व.ले.प.अ. (सिविल)	31.12.2002 (अपराह)

श्रीनिवासु  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. --प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-1 आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों

(सिविल) "लेखापरीक्षाअधिकारियों (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी(यों)का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
1.	श्री एन. मधुसूदन	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
2.	श्री टी. नागेश्वर शास्त्री	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
3.	श्री वेंकट राव	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
4.	श्री बी. सुब्बा राव-1	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
5.	श्री के. बिट्टोभारायलू	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
6.	श्री ए. जेम्स	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)
7.	श्री ए. लीला प्रसाद	174/1.1.2003	1.1.2003 (पूर्वाह)

उपर्युक्त पदोन्नतियां उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बसर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का.ज्ञा. सं. एफ. 7/1/80-स्था(पी.1) दि. 26.9.1981 तथा एफ 13/26/82 -स्था.(पी. 1) दि. 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

श्रीनिवासु  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर-751001, दिनांक 8 जनवरी 2003

सं. स्था.आ.स.-41--इस कार्यालय के का.आ. "ग" सं. 865 दिनांक 1.1.2003 में जारी पदोन्नति की स्वीकृति के बाद महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने सहर्ष श्री राज किशोर मिश्र, सहायक लेखा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 1.1.2003 (पूर्वाह) से भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा

अधिकारी) नियुक्ति नियमावली-2001 के प्रावधान के अनुसार वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखा अधिकारी पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति दी है।

यह पदोन्नति तदर्थ आधार पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय/प्रशासनिक न्यायाधिकरण में यदि कोई मामला विचाराधीन हो तो उसके अन्तिम निर्णय की शर्त पर है और उनके वरिष्ठों के दावे के प्रति बिना पूर्वाग्रह के है।

अश्विनी कुमार मिश्र  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रमुख महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं. स्था. आ. सं. 41/ज्ञापन सं. प्रशा.-I (लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IV/1679, दिनांक 02.12.2002, द्वारा सूचित का.आ.ग. 954 दिनांक 2.12.2002 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री अक्षय कुमार बेहेरा	02.12.2002 FN
2.	श्री बृन्दाबन साहु-I	09.12.2002 FN
3.	श्री ईश्वर नाएक	09.12.2002 FN

लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

बी. के. मोहन्ती  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 6 जनवरी 2003

सं. स्था. आ. सं. 42/ज्ञापन सं. प्रशा.-I(लेप)-3-1-1/भाग-V/1712, दिनांक 05.12.2002, द्वारा सूचित का.आ.ग. 975 दिनांक 5.12.2002 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने

पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री रुहिया सोरेन	09.12.2002
2.	श्री चन्द्र परोजा	09.12.2002
3.	श्री एसिआन गुरिआ	09.12.2002

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

बी. के. मोहन्ती  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक जनवरी 2003

सं. का. स्था. (हक)I/पेन/10-2/2002-2003--महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	श्री पी. शशिकुमारन नायर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.12.2002 (अपराह)	अधिवर्षिकी
2.	श्री एस. एस. मणि लेखापरीक्षा अधिकारी	31.12.2002 (अपराह)	अधिवर्षिकी

ह./- आठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग  
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 जनवरी 2003

सं. प्रशा.-I/1467/5/I (जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई

गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है और तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दिखाई गई तारीख से पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख सेवा-निवृत्ति की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
1.	सर्व/श्री के. के. शैली	09.12.1942 31.12.2002	01.01.2003
2.	आर. रामामूर्ति	14.12.1942 31.12.2002	01.01.2003
3.	टी. एम. गोपालाकृष्णन	15.12.1942 31.12.2002	01.01.2003

कुप्पास्वामी  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2003

सं. ए-19018/629/82-प्रशा.(राज.)--राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद में उप-निदेशक (यांत्रिकी), श्री रणजीत सिंह को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर में निदेशक (यांत्रिकी) स्थापनापन आधारित के पद पर दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1131/91-प्रशा.(राज.)--राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, रायपुर में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (रसायन), श्री सुधीर कुमार अग्रवाल को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, अगरतला में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन) स्थापनापन आधारित के पद पर दिनांक 28.10.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1290/94-प्रशा.(राज.)--राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (यांत्रिकी), श्री तोता राम शर्मा को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, तेजपुर में उप-निदेशक (यांत्रिकी) स्थापनापन आधारित के पद पर दिनांक 18.11.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

कोयला और खान मंत्रालय  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक दिसम्बर 2002

सं. ए/32013/1-भूवै.(वरि.)/2002-19ए--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) को पदोन्नति पर भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के रूप में, इसी विभाग में तथा 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती	
01.	आर. आर. शरण	25.10.2002 (अपराह)
02.	के. मुरलीधर राव	25.10.2002 (अपराह)
03.	अमला माईती	25.10.2002 (अपराह)
04.	बी. एम. बनर्जी	25.10.2002 (अपराह)
05.	एम. वी. सुब्बाराव	25.10.2002 (अपराह)
06.	एन. एल. यादव	25.10.2002 (अपराह)
07.	दीपक कुमार बोस	25.10.2002 (अपराह)
08.	एस. ए. सुफियान	25.10.2002 (अपराह)
09.	पी. सी. पात्र	25.10.2002 (अपराह)
10.	निर्मल धर	25.10.2002 (अपराह)
11.	के. के. नाईक	25.10.2002 (अपराह)
12.	एन. एन. चौधुरी	25.10.2002 (अपराह)

क्रम सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि
13.	देवाशीष साहा	25.10.2002 (अपराह)
14.	अभिजीत मुखर्जी	25.10.2002 (अपराह)
15.	अतानु राय	25.10.2002 (अपराह)
16.	कमलेश मुखोपाध्याय	25.10.2002 (अपराह)
17.	डी. बी. गुह	25.10.2002 (अपराह)
18.	एम. सुरेन्द्रनाथ	25.10.2002 (अपराह)
19.	डॉ. सत्रजीत नाग	25.10.2002 (अपराह)
20.	एस. के. चेलानी	14.11.2002 (अपराह)
21.	अरिजीत कुंडू	25.10.2002 (अपराह)
22.	श्रीमती संयुक्ता साहू	25.10.2002 (अपराह)
23.	के. शैश्या	25.10.2002 (अपराह)
24.	श्रीकांत बी. हेगडे	25.10.2002 (अपराह)
25.	वी. सिंगा राजू	25.10.2002 (अपराह)
26.	यू. पी. सिंह	28.10.2002 (पूर्वाह)
27.	प्रदीप्त तरफदार	25.10.2002 (अपराह)
28.	एस. एन. मोहंती	25.10.2002 (अपराह)
29.	प्रवीर कु. मुखोपाध्याय	25.10.2002 (अपराह)
30.	ए. ए. भास्कर	25.10.2002 (अपराह)
31.	एन. मारन	25.10.2002 (अपराह)
32.	पी. एस. अनिल कुमार	25.10.2002 (अपराह)
33.	डी. सी. बनर्जी	25.10.2002 (अपराह)
34.	के. सी. साहू	25.10.2002 (अपराह)
35.	अजीजुल हुसैन	25.10.2002 (अपराह)
36.	ए. बी. सत्य कुमार	01.11.2002 (पूर्वाह)

(खान विभाग)  
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

सं. ए-19011/142/2002-स्था. ए. पी. पी.--श्री प्रेम सिंग, खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2002 के अपराह में कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

श्रीमती एस. एम. मंगरूलकर  
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/318/2002-स्था. ए. पी. पी.--श्री बी. एस. कडुसकर, उप खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना), भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2002 के अपराह में कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

श्रीमती एस. एम. मंगरूलकर  
सहायक प्रशासन अधिकारी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. ए-32013/(ए.डी.जी.एम.)/10/2002-ई-1--राष्ट्रपति ने भारत मौसम विज्ञान के निम्नलिखित उपमहानिदेशकों को उसी विभाग में उनके नामों के आगे दी गई तारीख से आगामी आदेशों तक स्थानान्तरण रूप से अपर महानिदेशक नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	नाम	तारीख जिससे अपर महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए
1.	श्री एस. आर. कलसी	4.12.2002
2.	श्री आर. सी. भाटिया	4.12.2002
3.	डॉ. एस. के. दीक्षित	4.12.2002 (अ.प.)

के. पी. गौतम  
निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक

जे. एस. आर्य  
मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार)  
कृते मौसम विभाग के महानिदेशक

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-85, दिनांक 8 जनवरी 2003

सं. पीडी/11(2)/2002-आर-4/19--राष्ट्रपति, डॉ. प्रणेश सेनगुप्ता को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 5 दिसम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

अन्टोनी डिसा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग  
(विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड)

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 4 जनवरी 2003

सं. बीआर/951/057/19--डॉ. दिवाकर प्रसाद ने वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी' पद का भार दिनांक 30.11.2002 के अपराह्न को अधिवर्षिता पर छोड़ दिया।

डॉ. एन. राममूर्ति  
मुख्य कार्यकारी

## परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक जनवरी 2003

सं. बी.ई.सी.सी.-पदोन्नति/2002/41--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी (ई) वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- के पद पर अगस्त 01, 2002 के पूर्वाह्न से इसी केन्द्र में स्थानापन्न रूप में अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	वर्तमान वेतनमान
1.	श्री बी. सी. मंडल	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200/-
2.	श्री ए. डी. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200/-
3.	श्री एस. पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200/-

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. बी.ई.सी.सी.-पदोन्नति/2002/42--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी (सी) वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- के पद पर अगस्त 01, 2002 के पूर्वाह्न से इसी केन्द्र में स्थानापन्न रूप में अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	वर्तमान वेतनमान
1.	श्री यू. एस. पाण्डा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु. 6,500-200-10,500/-

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. बी.ई.सी.सी.-पदोन्नति/2002/43--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी (डी) वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- के पद पर अगस्त 01, 2002 के पूर्वाह्न से इसी केन्द्र में स्थानापन्न रूप में अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	वर्तमान वेतनमान
1.	श्री एच. के. पाण्डे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु. 8,000-275-13,500/-
2.	कु. टी. भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु. 8,000-275-13,500/-

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

## क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. क्रभनि/2/1(70)/95-प्रशा./4961--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी, श्री ए. जी. वी. पिल्लै को इसी निदेशालय में दिनांक 12.12.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुन्दरराजन  
प्रशासनिक अधिकारी-III



दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. क्रभनि/41/1/98-प्रशासन/12--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई की क्रय सहायक श्रीमती एस. एम. थिटे को इसी निदेशालय में दिनांक 18.11.2002 (पूर्वाह्न) से 20.12.2002 (अपराह्न) तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुन्दरराजन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 07 जनवरी 2003

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-4000/027--नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री टी. वेणुगोपाल, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000) ने स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने पर दिनांक 12.11.2002 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई. प्रह्लाद राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1352/028--नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. राघव राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300) ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई. प्रह्लाद राव  
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 07 जनवरी 2003

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों

ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	डॉ. आर. चनराजु, वैज्ञानिक अधिकारी-एच	31.12.2002	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर
2.	डॉ. एम. सी. भुरत, वैज्ञानिक अधिकारी-एफ	31.12.2002	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

के. दामोदरन  
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 7 जनवरी 2003

सं. एलसी/560(5)/37--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3059	मैसर्स मलिक कम्पनी लेंदर (प्राइवेट) लिमिटेड
2.	19426	मैसर्स बोरा फिनलीज (इण्डिया) लिमिटेड
3.	6225	मैसर्स चोपड़ा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
4.	24869	मैसर्स दिशाकीर्ति मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
5.	13392	मैसर्स ब्रिजेश कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	20792	मैसर्स सिद्ध फ्लोर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
7.	19488	मैसर्स मेटैलिक कम्पौनेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड
8.	4119	मैसर्स सचदेवा मोटर फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
9.	22931	मैसर्स पल्फ प्लान्टेशन (इण्डिया) लिमिटेड	30.	24550	मैसर्स कटियार शीतालय प्राईवेट लिमिटेड
10.	7375	मैसर्स श्रीगणेश लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	31.	24596	मैसर्स शानू शीतालय प्राईवेट लिमिटेड
11.	8452	मैसर्स एम. जे. कोस-पैक इन्डस्ट्री (प्राईवेट) लिमिटेड	32.	15024	मैसर्स सखमनी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	16486	मैसर्स ओपटिमम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	33.	21583	मैसर्स अग्रेनियन ट्रीज इण्डिया लिमिटेड
13.	13743	मैसर्स खन्ना टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	34.	24	मैसर्स फ्रीमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड
14.	16826	मैसर्स डी. जी. क्रेडिट्स एण्ड हायर परचेज लिमिटेड	35.	7959	मैसर्स शालिनी पालीसीट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	11871	मैसर्स राम आसरे रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	36.	18254	मैसर्स मनका इण्डिया फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
16.	9517	मैसर्स हिण्डन कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड	37.	7035	मैसर्स शूब ट्रानिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
17.	17668	मैसर्स एस. एस. परफ्यूमर्स प्राईवेट लिमिटेड	38.	16082	मैसर्स टफ इक्वूप लिमिटेड
18.	16670	मैसर्स स्प्राउट एग्रेटिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	39.	14303	मैसर्स स्क्रीप्स एण्ड बान्ड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
19.	3769	मैसर्स आदर्श इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	40.	13052	मैसर्स आर. एस. वी. फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	7210	मैसर्स ताक इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	41.	25683	मैसर्स वारक्तेज इन्फोसाइज नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
21.	2615	मैसर्स पृथ्वीनाथ एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	42.	4081	मैसर्स विकास चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
22.	21506	मैसर्स पाइन ग्रीन इस्टेट्स लिमिटेड	43.	21791	मैसर्स स्वास्तिक आयरन एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	13538	मैसर्स कामेरा सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	44.	16283	मैसर्स सतीश कुमार एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	3723	मैसर्स विशाल फाइनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	45.	7148	मैसर्स बिहारी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	23338	मैसर्स जोडियक हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड	46.	23844	मैसर्स गरिमा बोर्डस् प्राईवेट लिमिटेड
26.	16345	मैसर्स माधव सिन्थेटिक एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	22263	मैसर्स संजय बोर्डस् प्राईवेट लिमिटेड
27.	22369	मैसर्स प्रान्कुर ओनको-केयर प्राईवेट लिमिटेड	48.	14280	मैसर्स मान्धिया क्रेडिट (इण्डिया) लिमिटेड
28.	17433	मैसर्स सुविधा फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	49.	14137	मैसर्स रघुनाथ आयल्स एण्ड फैट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	18677	मैसर्स श्रीराम सैनी मिमोरियल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
50.	15486	मैसर्स ए. एम. के. चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
51.	12711	मैसर्स ए. एम. के. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स युनिक इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/2671--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स युनिक इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कमल इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/2746--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स कमल इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ए. टी. एम. फाइनेन्स सर्विसेज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/एफ.टी.एस./8750--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स ए. टी. एम. फाइनेन्स सर्विसेज लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अनुकम्पा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/10432--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स अनुकम्पा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स खुशबू बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/13928--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स खुशबू बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

वी. के. खूबचन्दानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

वी. के. खूबचरानी  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पोज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी./560/5/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से आज काट दिया गया है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	17570	मैसर्स लोटस शेयर सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	19500	मैसर्स लेमीशेम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	6542	मैसर्स रनक फीन स्टोक प्राईवेट लिमिटेड
4.	22664	मैसर्स कन्धारी टेक्ष रेयन प्राईवेट लिमिटेड
5.	18376	मैसर्स ओप्स हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
6.	32246	मैसर्स एसोसिएट्स लेबर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
7.	8649	मैसर्स दिनेश लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
8.	9034	मैसर्स राधा अलाइड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	32219	मैसर्स कोनी इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	11365	मैसर्स कृषि बीज भंडार प्राईवेट लिमिटेड
11.	1373	मैसर्स प्रेस्ड पोर क्लेन प्राईवेट लिमिटेड
12.	35996	मैसर्स सुधारी डिजाइनर एण्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	26070	मैसर्स रीड्स एक्विजम लिमिटेड
14.	26397	मैसर्स रीड्स केमीकल्स लिमिटेड
15.	25292	मैसर्स रीड्स फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
16.	24582	मैसर्स रीड्स एग्रो लिमिटेड
17.	24677	मैसर्स रीड्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
18.	25607	मैसर्स मीन स्टोक इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
19.	33706	मैसर्स अदानी ईस्टर्न पावर प्राईवेट लिमिटेड
20.	2361	मैसर्स डाइनासेम प्राईवेट लिमिटेड
21.	33918	मैसर्स कनक केमीकल प्राईवेट लिमिटेड
22.	19093	मैसर्स एक्टी ग्रेन एण्ड फूड प्राईवेट लिमिटेड
23.	28212	मैसर्स प्रोमेक्ष ओवरसीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
24.	28822	मैसर्स कोठारी पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
25.	27330	मैसर्स आशादीप बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	7055	मैसर्स वागसन लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
27.	25055	मैसर्स मनोरथ पेकेजिंग लिमिटेड
28.	21270	मैसर्स ओसीयेनिक ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	17553	मैसर्स मौलीन फिनसेप प्राईवेट लिमिटेड
30.	7333	मैसर्स मनोजय होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	6838	मैसर्स रुक्मा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	26259	मैसर्स जगदम्बा स्टॉक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	32041	मैसर्स एनी सेम प्राईवेट लिमिटेड
34.	29912	मैसर्स अभिषेक ओर्नामेंट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	25125	मैसर्स माई फेलो फाइनान्स लिमिटेड
36.	31846	मैसर्स सोमनाथ स्पाइस एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	4781	मैसर्स सुन्दरम जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
38.	24749	मैसर्स ठाकरसी फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड	59.	1147	मैसर्स जुपी डायका प्रोडक्ट्स लिमिटेड
39.	30354	मैसर्स स्टीलमैन ट्रेडलिक्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	9708	मैसर्स सुहर्ष मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
40.	27468	मैसर्स प्राइड फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड	61.	6125	मैसर्स अभारन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
41.	35737	मैसर्स अमन पोलीवेव प्राईवेट लिमिटेड	62.	6129	मैसर्स मयुरकल्प इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
42.	23375	मैसर्स गेट-वे मल्टीमीडिया इण्डिया लिमिटेड	63.	6124	मैसर्स मदनायक इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
43.	28611	मैसर्स जय कम्प्यूटर्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	6035	मैसर्स बद्रीकेदार इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
44.	3644	मैसर्स स्पेक्ट्रल केमिकल्स एण्ड कोट प्राईवेट लिमिटेड	65.	6131	मैसर्स रजनीपाली इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
45.	19212	मैसर्स प्रभु पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	6034	मैसर्स राजपुरेन्दु इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
46.	24570	मैसर्स बिट्स लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	6008	मैसर्स भाल त्रिलोचन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
47.	6063	मैसर्स मैलीटा इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	68.	6021	मैसर्स हीरन्यगर्भ इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	27416	मैसर्स रिद्धी एप्रोटेक लिमिटेड	69.	6022	मैसर्स देवी मृगाक्षी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
49.	8783	मैसर्स एल. एम. पी. सान्धी प्राईवेट लिमिटेड	70.	6031	मैसर्स भसमंग इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
50.	8784	मैसर्स एल. एम. पी. इन्वेस्टमेन्ट को. प्राईवेट लिमिटेड	71.	6027	मैसर्स देव मंदार्क इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
51.	34136	मैसर्स जल्पा पोलीपैक प्राईवेट लिमिटेड	72.	6012	मैसर्स पुष्पम्बर पाशुपती इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
52.	18702	मैसर्स डेरकोन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	73.	5955	मैसर्स कुसुमायुध इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
53.	7357	मैसर्स तनेजा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	6009	मैसर्स सौक अरिक्सीत इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
54.	3062	मैसर्स सुवीक प्रोजेक्ट्स एण्ड रीसेटल्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	75.	3975	मैसर्स कोर्न एण्ड कास्वा स्टार्च प्राईवेट लिमिटेड
55.	14000	मैसर्स सुवीक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	76.	6950	मैसर्स ब्राइट रीजोलाइट प्राईवेट लिमिटेड
56.	26013	मैसर्स ए. सी. एम. ई. इन्जीनियरिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	77.	19745	मैसर्स कीरा इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फिनासेप प्राईवेट लिमिटेड
57.	31406	मैसर्स क्रैसेन्ट रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	78.	26698	मैसर्स ए. बी. सी. टेली लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
58.	34136	मैसर्स युनाइटेड सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड			

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
79.	1532	मैसर्स मुनवेर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
80.	17028	मैसर्स ट्रियो पैक मशीन प्राईवेट लिमिटेड
81.	27074	मैसर्स अजीतकुमार सुरेन्द्रकुमार फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	16847	मैसर्स शोकी रब्वर प्राईवेट लिमिटेड
83.	6153	मैसर्स सौराष्ट्र इन्डस्ट्रियल फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	14169	मैसर्स दयाल टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड

डी. ए. वारडे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरियन्टल रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. 132/93963/560/38--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरियन्टल रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भारत इन्डस्ट्रीज (ए.पी.) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

हैदराबाद-500195, दिनांक 6 जनवरी 2003

सं. आरएपी/560(5)/24296/टीए.11/2003/2545--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स भारत इन्डस्ट्रीज (ए.पी.) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एन. एस. पोन्नूनिम्बि  
कम्पनियों का रजिस्ट्रार  
आन्ध्र प्रदेश



**SUPREME COURT OF INDIA**

New Delhi, the 14th January 2003

No. F. 20/2003-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri J. C. S. Rawat, Registrar, High Court of Uttaranchal, as a temporary Court Administrator-cum-Registrar General (Officer on Special Duty) in the Supreme Court of India with effect from the forenoon of 14th January 2003, until further orders, against a newly created post.

**SURESH CHANDRA,**  
Registrar (Admn.)

**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

New Delhi, the 31st December 2002

No. A-38012/2/2002-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri Raj Singh, CSES, working as Principal Private Secretary (ad-lcc) in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st December, 2002.

**M. NIRMALA RAO,**  
Under Secy. (Admn.)  
Union Public Service Commission

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS****(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)  
INDIA SECURITY PRESS**

Nashik, the 9th January 2003

No. 790/EST-18-1—In accordance with the provisions of FR-56(K) (1-A) (B) read with Rule 48-A (3-A) of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 and the provisions contained in G.I.M.F. No. 25013/10/85-Estt(A) dated 05/07/85, the application submitted by Shri D. R. Rokade, Security Officer, India Security Press, Nashik Road for Voluntary Retirement has been accepted and accordingly, he is allowed to retire voluntarily w. e. f. 12/12/2002 (F.N.).

**GANGA PARKASH,**  
General Manager

**SECURITY PAPER MILL**

Hoshangabad-461005, the 4th January 2003

No. 7(105)/9774—Based on the recommendation of the Group "B" Departmental Promotion Committee the undersigned is pleased to terminate the probation period of the following officers with 3-426 GI/2000

effect from the dates mentioned against their names :—

Name	Name of the post	Date
Shri T.R. Barmola	Tech. Officer (Prod.)	21-9-2002
Shri L.S. Gouri (SC)	—do—	—do—

**ASHWINI KUMAR,**  
General Manager

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT****(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF  
AUDIT, CENTRAL REVENUES)**

New Delhi-110002, the 6th January 2003

No. Admn. I/O.O. No. 119—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi, hereby appoints the following Audit Officers of this office to officiate as Sr. Audit Officers in the scale of Rs. 8000-275-13,500/- with effect from 1-1-2003 (Forenoon) until further orders.

1. Shri Praveen Kishore Chopra
2. Shri Rajeev Kumar-II

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Director (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 120—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7000-250-12000/- with effect from 1-1-2003 (Forenoon) until further orders.

1. Shri Satya Narain
2. Shri Ratan Pal Singh Yadav
3. Shri Vijay Kumar Bhalla

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Director (Admn.)

New Delhi-110002, the 9th January 2003

No. Admn. I/O. O. No. 121—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Desh Raj Raja, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India with effect from the afternoon of 31-01-2003.

2. His date of birth is 15-1-1943 and he joined the Government service on 5-4-1965.

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Director (Admn.)

No. Admn. I/O.O.No.122—The Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi, is pleased to appoint Shri Prakash Chandra (Employee Code 0897) Section Officer as Assistant Audit Officer (Group 'B') in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 3-1-2003 (A/N) until further orders :—

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

The 10th January 2003

No. Admn. I/O. O. No. 123—Director General of Audit Central Revenues, New Delhi is pleased to appoint the following Section Officers as Asstt. Audit Officers (Group 'B') in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 1-1-2003 until further orders :—

Sl. No.	Employee Code	Name S/Shri
1.	0502	Mohinder Singh
2.	0518	Kuljit Kaur (Smt.)
3.	0564	Arun Roy
4.	0613	Jayendra Bharti
5.	0690	Nand Lal Meena
6.	0836	Yash Pal Kharbanda
7.	1014	Shatrughan
8.	1170	Subhash Chandra Sharma
9.	0896	Jenet Lucy Sibichan (Smt.)
10.	1090	Rajeev Kakar
11.	0936	Vijay Arora
12.	0938	Rakhi Azad (Smt.)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

Admn. O.O. No. 70—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Sh. Gurbachan Lal, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India with effect from the afternoon of 30-9-2002.

His date of birth is 10-9-1942 and date of joining is 25-04-1968.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

Admn. O. O. No. 71—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Sh. Pritam Singh Gaba, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India with effect from the afternoon of 30-9-2002.

His date of birth is 1-10-1942 and date of joining is 28-8-1954.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT-ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES

New Delhi-110002, the 13th January 2003

No. AMG-I/Admn.I/2(8)/AAO/2002-2003/1749—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Section Officers as Assistant Audit Officer (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-105,00 from the date shown against them :—

Sr. No.	Name	Date of promotion
	S/Shri	
1.	Rakesh Sharma	1-1-2003
2.	Vaibhav Kolhe	-do-
3.	Smt. Kavita Sharma	-do-

T. K. DOGRA  
Dy. Director (Admn.)

#### ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT). WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 2nd January 2003

No. Admn. III/Pen/5-2/465—Shri Subimal Kanti Roy, Sr. Audit Officer, Shri Parimal Chakraborty, Sr. Audit Officer and Shri Niranjan Chakraborty, Sr. Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Kolkata retired from service on superannuation w.e.f. 30-11-2002 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(LOCAL BODIES AUDIT) WEST BENGAL  
(LOCAL AUDIT DEPARTMENT)**

Kolkata-700001, the 4th December 2002

No. LA/Admn/577(Vol. IV)/31—The Accountant General (Local Bodies Audit) West Bengal, has been pleased to appoint Shri Tapas Kumar Chattopadhyay, Assistant Audit Officer of the Local Audit Department, Office of the Accountant General (Local Bodies Audit) West Bengal to officiate as Audit Officer in the Local Audit Department, Office of the Accountant General (Local Bodies Audit) West Bengal, in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- in temporary and officiating capacity with effect from the forenoon of 04-12-2002 or the date of taking over charge whichever is later, until further orders.

The newly promoted Audit Officer may exercise option for choosing date for fixation of his pay on promotion under Rule 22(I)(a)(i) of the Fundamental Rules within one month of the date of promotion as amended in terms of G.I.MOP P.G. & P. Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 1/10/89-Estt(Pay-I) dated 30-08-1989. Option once exercised shall be final.

**B. K. BANIK**  
Deputy Accountant General (Local Bodies)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500004, the 7th January 2003

Principal Accountant General (Audit), I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of Sri A. Subba Rao, Asstt. Audit Officer (Civil) with effect from 31-12-2002 AN.

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Deputy Accountant General (Admn.)

Deputy Accountant General (Administration)  
Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirements of the following Senior Audit Officers (Civil) with effect from the dates noted against their names;—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of retirement
	S/Shri	
1.	K. Durga Prasada Rao	31-12-2002AN
2.	K. Vasudevan	31-12-2002AN

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Deputy Accountant General (Administration)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officers" (Civil) in the scale of Rs. 7,500-250-12,000 with effect from the date(s) mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of Assumption of charge
	(S/Shri)		
1.	N. Madhusudhana	174/1-1-2003	1-1-2003 F.N.
2.	T. Nageswara Sastry	—do—	—do—
3.	P. Venkat Rao	—do—	—do—
4.	V. Subba Rao I	—do—	—do—
5.	K. Vithoba Rayalu	—do—	—do—
6.	A. James	—do—	—do—
7.	A. Leela Prasad	—do—	—do—

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Judicial Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F.7/1/80-Estt. (P.I) dated 26-9-1981 and F.13/26/82-Estt. (P.I) dated 8-2-1983.

**Sd/- ILLEGIBLE**  
Deputy Accountant General (Administration)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT  
GENERAL (A&E) ORISSA**

Bhubaneswar, the 8th January 2003

No. E.O.-41—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office O.O.C. No. 865 dated 1-1-2003, the Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to promote Sri Raj Kishore Mishra, Assistant Accountants Officer to officiate as Accounts officer in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date of his taking over charge i.e. 1-1-2003 (F.N.) as per the provision in the IA&AD (Accounts Officer) recruitment Rules 2001.

The promotion is on adhoc basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any without prejudice to the claims of his seniors.

Aswani Kumar Mishra  
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT)-I, ORISSA**

Bhubaneswar, the 30th December 2002

No. E.O. 41—In pursuance of OOC No. 954 dated 2-12-2002, communicated vide Memo No.

Admn. I(Au) 17-2(AO)/Vol. IV/1679 dated 2-12-2002, the following Assistant Audit Officers on their promotion have assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against their name :—

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of Taking over charge as Audit Officer
1.	Akshya Kumar Behera	2-12-2002 FN
2.	Brindaban Sahoo-I	9-12-2002 FN
3.	Iswar Naik	—do—

The promotion to the cadre of Audit Officer is subject to the final decision of the Hon'ble High Court/C.A.T./Supreme Court on the cases subjudice in the courts and without prejudice to the claims of their seniors.

B. K. MOHANTY  
Sr. Deputy Accountant General/Admn

The 6th January 2003

No. E.O. 42—In pursuance of Office Order No. 975 dt. 5-12-2002, communicated vide Memo No. Admn. I(Au) 3-1-170/7/172 dt. 5-12-2002, the following Section Officers on their promotion have assumed charge as Assistant Audit Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the date noted against each of them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as A. A. O.
	S/Shri	
1.	Ruhia Soren	9-12-2002 FN
2.	Chandra Paroja	9-12-2002 FN
3.	Asian Guria	9-12-2002 FN

Their inter-se-seniority in the cadre will be fixed according to rules/roster points.

B. K. MOHANTY  
Sr. Deputy Accountant General/Admn.

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), KERALA**

Thiruvananthapuram, the 10th January 2003

No. OH/(B&A)/P&A/10-2/2002-2003—The following officials of the Office of the Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Shri P. Sasikumarn Nair, Sr. Audit Officer	31-12-2002 (AN)	Superannuation
2.	Shri S. S. Mony, Audit Officer	—Do—	—Do—

Sd/- ILLEGIBLE  
Deputy Accountant General(Admn.)

**DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT**  
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 10th January 2003

No. AN-1/1467/5/1(G).—The under-mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	K.K. Shelly	9-12-1942 31-12-2002	01-01-2003
2.	R. Ramamurthy	14-12-1942 31-12-2002	-do-
3.	T. M. Gopalakrishnan	15-12-1942 31-12-2002	-do-

**KUPPASWAMY,**  
Asstt. Controller General of Defence Accounts (Administration)

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES**

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT  
COMMISSIONER)

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 9th January 2003

No. A-19018/629/82-Admn(G).—The President is pleased to appoint Shri Ranjeet Singh, Deputy Director (Mechanical), Small Industries Service Institute, Allahabad as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Small Industries Service Institute, Muzaffarpur with effect from the forenoon of 2-12-2002 until further orders.

**S. V. N. PILLAI**  
Deputy Director (Admn.)

No. A-19018/1151/91-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Agarwal, Assistant Director (Grade II) (Chemical), Small Industries Service Institute, Raipur as Assistant Director (Grade-I) (Chemical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in Small Industries Service Institute, Agartala with effect from the forenoon of 28-10-2002 until further orders.

**S. V. N. PILLAI**  
Deputy Director (Admn. )

No. A-19018/1290/94-Admn(G).—The President is pleased to appoint Shri Tota Ram Sharma, Asstt. Director (Grade I) (Mechanical), Small Industries Service Institute, Indore as Deputy Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in Branch Small Industries Service Institute, Tezpur with effect from the forenoon of 18-11-2002 until further orders.

**S. V. N. PILLAI**  
Deputy Director (Admn.)

**KOYLA AUR KHAN MANTRALAYA**  
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 12th December 2002

No. A-32013/I-Geol (Sr.)/2002-19A—The president is pleased to appoint the following Geologist (Jr.), Geological Survey of India, on promotion as Geologist (Sr.) in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis w.e.f. the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining
1	2	3
	Shri/Dr./Smt.	
1.	R. R. Sharan	25-10-2002(AN)
2.	K. Muralidhar Rao	-do-

1	2	3
	Shri/Dr./Smt.	
3.	Amala Majhi	25-10-2002 (AN)
4.	B. M. Banerjee	-do-
5.	M. V. Sobba Rao	-do-
6.	N. L. Yadava	-do-
7.	Dipak Kumar Bose	-do-
8.	S. A. Sufiyan	-do-
9.	P. C. Patra	-do-
10.	Nirmal Dhar	-do-
11.	K. K. Naik	-do-
12.	N. N. Chaudhuri	-do-
13.	Debashis Saha	-do-
14.	Abhijit Mukherjee	-do-
15.	Atanu Ray	-do-
16.	Kamalesh Mukhopadhyay	-do-
17.	D. B. Guha	-do-
18.	M. Surendranath	-do-
19.	Sattrajit Nag	-do-
20.	S. K. Chellani	14-11-2002 (FN)
21.	Arijit Kundu	25-10-2002 (AN)
22.	Sanjukta Sahoo	-do-
23.	K. Seshaiiah	-do-
24.	Shrikant V. Hegde	-do-
25.	V. Singa Raju	-do-
26.	U. P. Singh	28-10-2002 (FN)
27.	Pradipta Tarafdar	25-10-2002 (AN)
28.	S. N. Mohanty	-do-
29.	Prabir Kr. Mukhopadhyay	-do-
30.	A. A. Bhasker	-do-
31.	N. Maran	-do-
32.	P. S. Anil Kumar	-do-
33.	D. C. Danerjee	-do-
34.	K. C. Sahoo	30-10-2002 (AN)
35.	Azizul Hussain	25-10-2002 (AN)
36.	A. V. Satya Kumar	01-11-2002 (FN)

K. P. GAUTAM  
Director (Personnel)  
for Director General  
Geological Survey of India

DEPARTMENT OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 6th January 2003

No. A-19011/142/2002-Estt. App.—Shri Prem Singh, Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the After-noon of 31-12-2002 on attaining the age of superannuation.

Smt. S. M. MANGRULKAR  
Asstt. Admn. Officer,

No. A-19011/318/2002-Estt. App.—Dr. V. S. Kaduskar, Deputy Mineral Economist(I), Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the After-noon of 31-12-2002 on attaining the age of superannuation.

Smt. S.M. MANGRULKAR  
Asstt. Admn. Officer

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi, the 3rd January 2003

No. A-32013(ADGM)/10/2002-E.I.—The President has been pleased to appoint the undermentioned Deputy Director General of Meteorology, India Meteorological Department as Additional Director General of Meteorology in an officiating capacity in the same Department from the date indicated against their names below. The promotions are until further order :—

S. No.	Name	Date from which appointed as Addl. Director General of Meteorology
1.	Shri S. R. Kalsi	4-12-2002
2.	Shri R. C. Bhatia	4-12-2002
3.	Dr. S. K. Dikshit	4-12-2002 (AN)

J. S. ARYA  
Dy. Director General of Meteorology  
(Administration & Stores)  
for Director General of Meteorology

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-400085, the 8th January 2003

No. PD/11(2)/2002-R-IV/19—The President is pleased to appoint Dr. Pranesh Sengupta as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 5th December, 2002 until further orders :—

ANTHONY DE SA  
Controller

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY****BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY**

Mumbai-400705 the 4th January 2003

No. BR/951/057/19—Dr. Diwakar Prasad relinquished charge of the post of SO/G on 30-11-2002 AN consequent on superannuation.

Dr. N. RAMAMOORTHY  
Chief Executive

**VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE**

Kolkata-700064, the 3rd January 2003

No. VECC/Promotion/2002/41—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/E (Grade Rs. 12000-375-16500) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2002 in an officiating capacity until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri Bidhan Chandra Mondal	Scientific Officer (D)	Rs. 10000-325-15200/-
2.	Shri Anjan Dutta Gupta	-Do-	-Do-
3.	Shri Sandip Pal	-Do-	-Do-

T. KISHAN  
Administrative Officer-III

The 3rd January 2003

No. VECC/Promotion/2002/42—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Assistant of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic energy, Kolkata as Scientific Officer/C (Grade : Rs. 8000-275-13500) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2002 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri Umashankar Panda	Scientific Assistant (C)	Rs. 6500-200-10500

T. KISHAN  
Administrative Officer-III

No. VECC/Promotion/2002/43—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic energy, Kolkata as Scientific Officer/D (Grade : Rs. 10000-325-15200) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2002 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri Hemandra Kr. Pandey	Scientific Officer (C)	Rs. 8000-275-13500
2.	Kum. Tumpa Bhattacharjee	-Do-	-Do-

T. KISHAN  
Administrative Officer-III

**DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES**

Mumbai-400094, the 24th December 2002

Ref. DPS/2/1(70)/95-Adm./4961—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri A.G.V. Pillai, Storekeeper as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 12-12-2002 (FN) until further orders.

**R. SUNDARARAJAN**  
Administrative Officer-III

**NUCLEAR FUEL COMPLEX**

Hyderabad-500062, the 7th January 2003

Ref. No. NFC/Adm/Pen/EC-4000/027—Shri T. Venugopal, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16400-450-20000) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, who has retired from service voluntarily has relinquished the charge of the post with effect from 12-11-2002 (FN).

**T. Y. PRAHALAD RAO**  
Administrative Officer

The 2nd January 2003

Ref. DPS/41/1/98-Adm./12—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Smt. S. M. Thite, Purchase Assistant, CPU, DPS, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same Directorate w.e.f. 18-11-2002(FN) to 20-12-2002 (AN).

**R. SUNDARARAJAN**  
Administrative Officer-III

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-1352/028—On attaining the age of superannuation, Shri P. Raghava Rao, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14300-400-18300) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad has relinquished the charge of the post with effect from 30-11-2002 (AN).

**T. Y. PRAHALAD RAO**  
Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-500016, the 7th January 2003

NO. A MD-51(59)/2002-Pen/2887—On attaining the age of superannuation, the following Officer(s) have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned against each :—

S. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Dr. R. Dhana Raju, Scientific Officer/H	31-12-2002	Superannuation
2.	Dr. M.C. Bhurat, Scientific Officer/F	31-12-2002	Superannuation

**K. DAMODARAN**  
Chief Administrative and Accounts Officer



MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kanpur-208001, the 7th January 2003

No. 560 (5)/LC/37—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

Co. No. Company Name

3059	M/s. Malik Company Leather Pvt. Ltd.
19426	.. Bora Finlease (India) Ltd.
6225	.. Chopra Exports Pvt. Ltd.
24869	.. Dishakriti Medicare Pvt. Ltd.
13392	.. Brijesh Constructions Pvt. Ltd.
20792	.. Sidhi Flour Mills Pvt. Ltd.
19488	.. Metallic Components Pvt. Ltd.
4119	.. Sachdeva Motor Finance Pvt. Ltd.
22931	.. Pelf Plantation (India) Ltd.
7375	.. Shree Ganesh Leasing & Finance Pvt. Ltd.
8452	.. M. J. Corru-Pack Industry (P) Ltd.
16486	.. Optimum Finance Pvt. Ltd.
13743	.. Khanna Timbers Pvt. Ltd.
16826	.. Dee Jee Credits & Hire Purchase Ltd.
11871	.. Ram Asrey Restaurant Pvt. Ltd.
9517	.. Hindon Carbons Pvt. Ltd.
17668	.. S. S. Perfumers Pvt. Ltd.
16670	.. Sprout India Pvt. Ltd.
7959	.. Shalini Polyseats Pvt. Ltd.
24	.. Freeman & Company Ltd.
21583	.. Agrarian Trees India Ltd.
15024	.. Rukhmani Marketing Pvt. Ltd.
24596	.. Shanu Sheetalaya Pvt. Ltd.
24550	.. Katiyar Sæetalaya Pvt. Ltd.

Reg. No.	Name of the Company
18677	.. Shree Ram Senehi Memorial Hospital Pvt. Ltd.
17433	.. Subhida Finance & Investment Co. Ltd.
22369	.. Prankur Onco-Care Pvt. Ltd.
16345	.. Mayav Synthetic and Allied Products Pvt. Ltd.
23338	.. Zodiac Health Care Pvt. Ltd.
3723	.. Vishal Finance & Trading Co. Pvt. Ltd.
13538	.. Cumro Savings & Investment Co. Ltd.
21506	.. Pine Green Estates Ltd.
2615	.. Prithavinath & Brothers Pvt. Ltd.
7210	.. Tak Engineering Company Pvt. Ltd.
3769	.. Adarsh Electricals Pvt. Ltd.
14137	.. Raghunath Oils & Fats Ltd.
14280	.. Maadaya Credit (India) Ltd.
22263	.. Sanjay Boards Pvt. Ltd.
23844	.. Garmia Boards Pvt. Ltd.
7148	.. Behari Builders Pvt. Ltd.
16283	.. Satish Kumar & Brothers (P) Ltd.
21791	.. Swastika Iron & Steel Products Pvt. Ltd.
4081	.. Vikas Chit Fund Pvt. Ltd.
25683	.. Barclays Infocye Network Pvt. Ltd.
13052	.. R. S. B. Finance Pvt. Ltd.
14303	.. Scrips & Bonds (India) Pvt. Ltd.
16082	.. Tuff Equip Ltd.
7035	.. Shub Tronics (India) Pvt. Ltd.
18254	.. Minka India Finance & Investment Co. Ltd.
15486	.. A. M. K. Chit Fund Pvt. Ltd.
12711	.. A. M. K. Finance and Investments Ltd.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Uniqui Investors Traders Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st January 2003

No. ROC/560/2671/3—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uniqui Investors Traders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anukampa Finvest Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/10432/47—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anukampa Finvest Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamal Investors Traders Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st January 2003

No. ROC/560/2745/8—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamal Investors Traders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khushboo Build Con Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/13923/52—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khushboo Build Con. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ATM Financial Services Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/8750/35—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. ATM Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shankar Freight Carriers Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/13844/57—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shankar Freight Carriers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trident Gem Export Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd January 2003

No. ROC/JPR/FTS/550/15208/62—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Trident Gem Export Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Esen Sales Pvt. Ltd.

Jaipur, the 7th January 2003

No. ROC/560/5970/146—Notice is hereby given Pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Esen Sales Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Efficient Consultants Pvt. Ltd.

Jaipur, the 6th January 2003

No. ROC/560/3731/131—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Efficient Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avinashi Shyam Foods Pvt. Ltd.

Jaipur, the 7th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/10104/156—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Avinashi Shyam Foods Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chambal Medicare (Pvt.) Ltd.

Jaipur, the 6th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/15114/88—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Chambal Medicare (Pvt.) Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Epin Systems Pvt. Ltd.

Jaipur, the 8th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/15405/205—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Epin Systems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Derawala Properties Pvt. Ltd.

Jaipur, the 8th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/13314/210—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Derawala Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjo Suitings Ltd.

Jaipur the 10th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/8450/295—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Sanjo Suitings Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Luhadia Finance Company Pvt. Ltd.

Jaipur, the 8th January 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/9417/215—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Luhadia Finance Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanchandee Synthetics Pvt. Ltd.

Jaipur the 10th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/8471//279—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof, the name of the company M/s. Kanchandee Synthetics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lord Credit Factors Ltd.

Jaipur, the 9th January 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/13691/223—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Lord Credit Factors Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 15th January 2003

No. ROC/GUJ/560(5)/2003—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies shall stand dissolved.

Co. No.	Name of the Company
17570	Lotus Share Ser. Pvt. Ltd.
19500	Lamichem Mktg. Pvt. Ltd.
6542	Ranak Finstock Pvt. Ltd.

Co. No.	Name of the Company	Co. No.	Name of the Company
22664	Kandhari Texyarn Pvt. Ltd.	19212	Prabhu Polymers Pvt. Ltd.
18376	Opus Healthcare Pvt. Ltd.	24570	Bits Leasing & Fin. Pvt. Ltd.
32246	Associate Labour Con. Pvt. Ltd.	6063	Mylita Eng. Pvt. Ltd.
8649	Dinesh Leasing & Inv. Pvt. Ltd.	27416	Riddhi Agrotech Ltd.
9034	Radha Allied Engg. Pvt. Ltd.	8783	LMP Sanidhi Pvt. Ltd.
32219	Kony Eng. Pvt. Ltd.	8784	LMP Investment Co. Pvt. Ltd.
11365	Krushni Beej Bhandar Pvt. Ltd.	34136	Jalpa Polypack Pvt. Ltd.
1373	Pressed Porcelain Pvt. Ltd.	18702	Darcon Systems Pvt. Ltd.
35996	Choudhary Designer & Fab. Pvt. Ltd.	7357	Taneja Synthetics Pvt. Ltd.
26070	Rids Exim Ltd.	3062	Suvik Projects & Res. Co. Pvt. Ltd.
26397	Rids Chemicals Ltd.	14000	Suvik Mktg. Pvt. Ltd.
25292	Rids Flora Pvt. Ltd.	26012	ACME Eng. Services Pvt. Ltd.
24582	Rids Agro Ltd.	31406	Crescent Resources Pvt. Ltd.
24677	Rids Construction Ltd.	34135	United Softech Pvt. Ltd.
25607	Mean Stock Invest Pvt. Ltd.	1147	Jupi Dyca Products Pvt. Ltd.
33706	Adani Eastern Power Pvt. Ltd.	9708	Suharsh Mktg. Pvt. Ltd.
2361	Dynachem Pvt. Ltd.	6125	Sbharan Investment Pvt. Ltd.
33918	Kanak Chemicals Pvt. Ltd.	6129	Mayurkalp Invest. Pvt. Ltd.
19093	Acti Grain and food Pvt. Ltd.	6124	Madnayak Invest. Pvt. Ltd.
28212	Piomax Overseas India Pvt. Ltd.	6035	Badrikedar Invest. Pvt. Ltd.
28822	Kothari Pumps Pvt. Ltd.	6131	Rajnipali Invest. Pvt. Ltd.
27330	Ashadeep Business Pvt. Ltd.	6034	Rajpurendu Invest. Pvt. Ltd.
755	Wagson Leasing & Invest. Ltd.	6008	Phal Trilochan Invest. Pvt. Ltd.
25055	Manorath Packaging Ltd.	6021	Hiranyagarbha Invest. Pvt. Ltd.
21270	Oceanic Granites Pvt. Ltd.	6022	Devi Mrugakshi Invest. Pvt. Ltd.
17553	Moulin Fincap Pvt. Ltd.	6031	Bhasmang Invest. Pvt. Ltd.
7333	Manojoy Holdings Pvt. Ltd.	6027	Dev Mandark Invest. Pvt. Ltd.
6838	Rakuma Holdings Pvt. Ltd.	6012	Pushpamber Pashupati Invest. Pvt. Ltd.
26259	Jagdamba Stockhold Pvt. Ltd.	5955	Kusumayudh Invest. Pvt. Ltd.
32041	Eny Chem Pvt. Ltd.	6009	Shuk Arikshit Invest. Pvt. Ltd.
29912	Abhishek Ornaments (I) Pvt. Ltd.	3975	Corn and Casava Starch Pvt. Ltd.
25125	Myfellow Fin. Pvt. Ltd.	6950	Brite Resolite Pvt. Ltd.
31846	Somanath Spice & Foods Pvt. Ltd.	19745	Kaira Inv. & Fin. Pvt. Ltd.
4781	Sundram Gymkhana Pvt. Ltd.	26698	ABC Tele Leasing Pvt. Ltd.
24749	Thakarshi Finstock Pvt. Ltd.	1532	Moonware Invest. Pvt. Ltd.
30354	Steelman Tradelinks Pvt. Ltd.	17028	Trio Pack Machine Pvt. Ltd.
27468	Fried Finstock Pvt. Ltd.	27074	Ajit Kumar Surendra Kumar Fashions Pvt. Ltd.
35737	Aman Polyveawe Pvt. Ltd.	16847	Roxy Rubber Pvt. Ltd.
23375	Gateway Multimedia India Ltd.	6153	Saurashtra Incl. Fastners Pvt. Ltd.
28611	Jay Computers Machines Pvt. Ltd.	14169	Dayal Textiles Pvt. Ltd.
3644	Spectral Chemicals & Coat. Pvt. Ltd.		

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oriental Restaurant Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd January 2003

No. 132/93963/160/38—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oriental Restaurant Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharath Industries (A.P.) Pvt. Ltd.

Hyderabad the 6th January 2003

No. RAP/560(5)/24296/TA.II/2003—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bharath Industries (A.P.) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

N. S. PONNUNAMBI  
Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

प्रकाशक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003